



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र, 1940 (श०)

संख्या- 877 राँची, मंगलवार

11 सितम्बर, 2018 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर, 2018

संख्या-8/गठन/147/2017/न०वि०आ०-4561-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा (2) सहपठित धारा-4, 5, 6, धारा-8 की उपधारा-(2) तथा धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्रामों को मिलाकर, उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-21/प०, दिनांक 3 जनवरी, 2017 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-296, दिनांक 17 जनवरी, 2018 द्वारा परिवर्तनीय (लघुत्तर) शहरी क्षेत्र गोमिया नगर परिषद वर्ग-‘ख’ घोषित करने का ‘प्रारूप आदेश’ निर्गत किया गया। प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर आपत्ति एवं सुझावों पर विचार करते हुए उपायुक्त, बोकारो को निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-918/प०, दिनांक 4 जून, 2018 के द्वारा विभागीय अधिसूचना सं०-296, दिनांक 17 जनवरी, 2018 के प्रारूप प्रकाशन के 30 दिनों के अंदर प्राप्त आपत्ति/सुझाव का निष्पादन कर गोमिया नगर परिषद वर्ग-‘ख’ के गठन हेतु स्पष्ट अनुशंसा की है।

अतः सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) (यथा संशोधित) की धारा-3 की उपधारा (2) सहपठित धारा-4, 5, 6, धारा-8(2) एवं धारा-14(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के 08 राजस्व ग्रामों (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित परिशिष्ट के रूप में संलग्न) को मिलाकर अधिसूचना निर्गत की तिथि से **गोमिया नगर परिषद वर्ग-‘ख’** के रूप में घोषित करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
गोमिया नगर परिषद वर्ग-‘ख’ का गठन

उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-918/प०, दिनांक 4 जून, 2018 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत प्रखण्ड गोमिया के गोमिया नगर परिषद वर्ग-‘ख’ में सम्मिलित होने वाले राजस्व ग्रामों की सूची निम्नवत है:-

क्र०	पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग कि०मी०)
1	गोमिया	गोमिया	110	7197	687
2	पलिहारी गुरुडीह	पलिहारी गुरुडीह	108	6879	
3	ससबेड़ा पू०	ससबेड़ा	105	9433	
4	ससबेड़ा प०				
5	खम्हरा अंश	खम्हरा	104	3215	
6	स्वांग उत्तरी	स्वांग	107	12839	
7	स्वांग द० अंश				
	स्वांग द० अंश	पिपराडीह	106	1140	
8	हजारी	हजारी	112	4774	
		खुदगड्डा	111	2664	
कुल-				48141	

गोमिया नगर परिषद वर्ग-‘ख’ एक झलक में :-

1.	गोमिया नगर परिषद वर्ग-‘ख’ की जनसंख्या	48141
2.	जनसंख्या का घनत्व	687 प्रति वर्ग कि०मी०
3.	गोमिया नगर परिषद वर्ग-‘ख’ का क्षेत्रफल	66.40 वर्ग कि०मी०

सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।
